



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 390 राँची, सोमवार, 13 मई, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

26 मार्च, 2019

संख्या - 2/रा० स्था०-36/14-1119/रा०,-- उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-75, दिनांक-06.03.19 के आलोक में श्री जेम्स सुरीन, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास (बोकारो) को उनके विभागीय कार्यों के अतिरिक्त विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act.-2013") की धारा 11, 13, 16, 17, 19 (2), 26, 40 तथा 81 को छोड़कर भू-अर्जन कार्यों के निष्पादन हेतु समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है। पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के संपादन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 ए, 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार-ग्रहण तक (जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
